

# **ASHOKA REFINERIES LIMITED**

**Reg. Off: 408, Wallfort Ozone, Fafadih, Raipur (Chhattisgarh) 492001, PH-07714036578**  
**CIN NO: L15143CT1991PLC006678**

---

**REF: ARL/BSE/2025-26/13**

**28<sup>th</sup> May, 2025**

BSE Ltd  
Corporate Relationship Department  
P. J. Towers, 25<sup>th</sup> Floor, Dalal Street,  
Mumbai (Maharashtra) 400 001

Dear Sir/Madam,

**Sub: Publication of Audited Financial Results for the quarter & year ended 31<sup>st</sup> March, 2025**

In terms of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended please find enclosed herewith newspaper advertisement for the audited financial results of Ashoka Refineries Limited for the quarter & financial year ended 31 March, 2025 published in "The Free Press Journal" Mumbai Edition (English) & "Lok Maya" Raipur Edition (Hindi) on 28<sup>th</sup> May, 2025 for your information & record.

The above information is also available at the website of the Company at [www.ashokarefineries.com](http://www.ashokarefineries.com).

**Yours faithfully,**  
**For, Ashoka Refineries Limited**

**(Garima Mogha)**  
Company Secretary & Compliance Officer  
M. No.: A66541

Encl: As above



NEW ERA ALKALOIDS & EXPORTS LIMITED						
CIN NO: L24117CT1995PLC009845						
Regd. Off. :- 408, Wallfort Ozone, Fafadin Chowk, Raipur-492001						
Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 (Rs in Lakhs)						
Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
	31-Mar-25 (Audited)	31-Dec-24 (Un Audited)	31-Mar-24 (Audited)	31-Mar-25 (Audited)	31-Mar-24 (Audited)	
Total Income	32.65	43.66	6.78	106.01	39.38	
Profit/Loss before exceptional items and tax	5.65	3.51	5.22	5.23	33.17	
Exceptional items	-	-	-	-	-	
Profit/(Loss) before and tax	5.65	3.51	5.22	5.23	33.17	
Tax Expense						
a) Current Tax	-	6.94	-	-	58.87	
b) Deferred Tax	-	0.00	-	0.01	0.01	
c) Tax for previous Years	-	-	-	6.94	-	
Profit/(Loss) for the period	5.65	(3.43)	5.22	(1.72)	(25.72)	
Other comprehensive income						
A. (i) Items that will not be reclassified to profit and loss:	18.47	-	12.88	18.47	(100.96)	
(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	(1.28)	-	123.14	(1.28)	123.14	
B. (i) Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-	
(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-	
Total Comprehensive Income for the period	22.84	(3.43)	141.24	15.47	(3.54)	
[Comprising Profit (Loss) and Other comprehensive Income for the period]						
Paid-up Share Capital (par value Rs. 10/- each fully paid up)	328.44	328.44	328.44	328.44	328.44	
Reserve excluding Revaluation reserves as per Balance sheet of Previous accounting year	-	-	-	-	-	
Earnings per equity share (Par value Rs. 10 each)						
i) Basic	0.17	(0.10)	4.30	(0.05)	(0.78)	
ii) Diluted	0.17	(0.10)	4.30	(0.05)	(0.78)	
"NOTES TO RESULTS: The above is an extract of the detailed format of Annual Financial results filed with the stock exchange under Regulation -33 of the SEBI (LODR), 2015. The full format of results are available on Company's website https://www.neweraltd.com/ as well as on the website of MSEI."						
Place: Raipur				"ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS		
Date: 27.05.2025				SD/- Ravindra Pokharna, M.D."		

## नाशिक महानगरपालिका, नाशिक

### अतिक्रमण विभाग

### अटी शर्तीत बदल न करता पुर्ननिविदा सूचना क्रमांक : ०२/२०२५

सिंहस्थ कुंभमेळा २०२६-२७ चे अनुषंगाने नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील अतिक्रमणे/अनाधिकृत बांधकामे निष्कासन करणेसाठी तांत्रिक/अतांत्रिक मनुष्यबळ व यंत्र सामुग्री पुरविणे आवश्यक असल्याने त्याकामासाठी खालील प्रमाणे तपशिलानुसार पात्र मत्तेदाराकडून निविदा मागविण्यात येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नांव	अंदाजे प्राकलन रक्कम (३ वर्ष कालावधीचे)	बयाना रक्कम	निविदा शुल्क E-Tender Fee + GST + १०/- ऑनलाईन भरण रिसिट अपलोड करावी.
१	पंचवटी विभागिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील अतिक्रमणे / अनाधिकृत बांधकामे निष्कासन करणेसाठी तांत्रिक/अतांत्रिक मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री पुरविणेबाबत...	३,८७,००,०००/-	३,८७,०००/-	E-Tender Fee ३,८७०/- GST १८% ६९०/- Form Fee १०/- एकूण र.रु. ४,६५०/-

ऑनलाईन ई-निविदा विक्री व स्विकृती मन्पा वेबसाईट <http://mahatenders.gov.in>

अ) कोरे निविदा संच विक्री दि.२८/०५/२०२५ ते दि. ०३/०६/२०२५ दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत.

ब) ई-निविदा स्वीकृती दि. ०३/०६/२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत.

क)ऑनलाईन सादर केलेल्या निविदा दि.०५/०६/२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजेनंतर शक्य झाल्यास उपआयुक्त, अतिक्रमण विभाग, यांचे समक्ष उघडण्यात येतील.

दिनांक : २७/०५/२०२५

ठिकाण :- नाशिक

XXX/-  
उपआयुक्त (अति)

XXX/-  
अति.आयुक्त (३)

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक

जनसंपर्क/जा.क्र./१३/२०२५ दि.२७/०५/२०२५

सर्व नागरिकांनी पाणी काटकरांनी वापरावे.

### NOTICE

#### INDIAN HOTEL COMPANY LTD.

**Registered Office: Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai, Maharashtra - 400001. Email Id: investorrelations@tajhotels.com**

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s]. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.

Sr.No.	Name of the Shareholder	Folio No.	Face Value	Certificate No.	No. of Shares	Distinctive no.
1	KALPANA DHAVAL SHAH SHAILESH BHARILAL PATEL	K0001213	Rs. 1/-=	6321	3220	12892321 - 12895540

Place: Mumbai  
Date: 28/05/2025

**Name of the Share Holder(s)/ Applicant(s)**  
**KALPANA DHAVAL SHAH / SHAILESH BHARILAL PATEL**

### Goddevi[15470]:- Nikhisha Arcade 1st Floor, Goddev Road, Panchal Nagar, Bhayandar, Thane 401105

**Ref. No. MIRON/15470/ON ULTRASONIC/REDEMPTION NOTICE Dated: 23.05.2025**

To

**M/S Om Ultrasonic (Proprietor shri Arjun Bhikaji Kadam),** Gala No 2 Jay Ambe Chawl/4-Shiv Shakti,Nagar-Bhayander East-Thane-Maharashtra 401105

**M/S Om Ultrasonic (Proprietor shri Arjun Bhikaji Kadam):-**Also at Flat No. 207 on 2nd floor Shrinath Jyoti at Village Navghar ,Bhayander East-Thane-Maharashtra 401105

**Shri Arjun Bhikaji Kadam (Proprietor):-** Flat No. 207 on 2nd floor Shreenath Jyoti, Navghar Phatak Road,Near Police Station Bhayander East-Thane-Maharashtra 401105

**Shri Rajesh Kumar Singh (Guarantor):-**B 209 Shrinath Jyoti,Navghar Road Opp Navghar ,Police,Station Bhayander East Thane-Maharashtra 401105

**Subject: Notice for exercising the right of redemption under Section 13 (8) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act")**

The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank, Goddevi[15470] branch, (hereinafter referred to as "the secured creditor"), appointed under the Act do hereby issue this notice, under Section 13(8) of the Act read with Rule 8(6) of the SARFAESI Rules, to you all as under:

As you all are aware that the secured creditor had issued the Demand Notices, under Section 13(2) of the Act, on 20.03.2025, to the borrower **M/S Om Ultrasonic (Proprietor Shri Arjun Bhikaji Kadam)**, demanding to pay an amount **Rs.2,93,482.60 (Rupees Two Lakhs Ninety Three Thousand Four Hundred Eighty Two and Paise Sixty Only)** as on date 19.03.2025 & interest stated thereon within 60 days from the date of receipt of the said notices.

Since, the Borrowers, (above mentioned names) having failed to repay the amount mentioned in the above said demand notices, the Authorized Officer under Section 13(4) of the Act had taken symbolic possession of the secured assets described in the Possession Notice dated 21.05.2025. Further, the said symbolic notice was duly published in Nav shakti and Free Press Journal newspapers on 23.05.2025.

To comply with the provision of SARFAESI Act, 2002 read with Rule 8(6) of SARFAESI Rules, you all are hereby given a last and final opportunity to redeem and reclaim the secured assets, which are in possession of the secured creditor, within 30 days from the receipt of this notice, by discharging the liability of **Rs.2,93,482.60 (Rupees Two Lakhs Ninety Three Thousand Four Hundred Eighty Two and Paise Sixty Only)** as on date 19.03.2025, plus subsequent interest, costs and expenses in full, failing which the sale notice under the Act will be published in the newspaper specifying one of the following modes mentioned below, to sell the secured assets:

- By obtaining quotations from the persons dealing with similar secured assets or otherwise interested in buying assets; or
- By inviting tenders from the public; or
- By holding public auction including through e-auction mode; or
- By private treaty.

As per Section 13(8) of the Act, you are entitled to redeem the secured Assets at any time before the date of publication of sale notice in Newspapers, failing which your Right to redeem the mortgaged property as per Section 13(8) of the Act shall stand extinguished.

Without prejudice to any other rights available to the secured creditor under the subject Act or any other law in force.

Thanking You.

**CANARA BANK**  
Authorised Officer

### Black Box Limited

**Registered Office:** 501, 5th Floor, Building No.9, Airol Knowledge Park, MIDC Industrial Area, Airol, Navi Mumbai - 400708.

**STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2025**

(₹ in Crores, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31/03/2025	31/12/2024	31/03/2024	31/03/2025	31/03/2024
Total income from operations	1,544.58	1,501.72	1,480.35	5,966.91	6,281.58
Profit before impact of foreign currency transactions and translations, share of net profit of investment accounted for using the equity method, exceptional items and tax	69.60	82.27	56.06	284.47	189.78
Net profit for the period (before exceptional items and tax)	74.08	72.63	55.86	277.55	196.05
Net profit for the period before tax (after exceptional items)	57.78	59.23	46.89	211.86	156.39
Net profit for the period after tax (after exceptional items)	60.47	56.08	40.90	204.78	137.67
Total Comprehensive Income for the period/ year (net of taxes) - gain	45.56	57.67	72.90	143.63	184.35
Earnings before interest, tax, depreciation & amortisation and other income (EBITDA)	146.96	133.51	124.61	529.79	430.80
Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each)	33.87	33.84	33.61	33.87	33.61
Other equity as shown in the audited Balance Sheet				724.87	447.31
Earnings per share of Rs. 2 each before exceptional items: Basic (in Rs.)	4.53*	4.13*	2.97*	16.06	10.56
Diluted (in Rs.)	4.49*	4.06*	2.96*	16.00	10.54
Earnings per share of Rs. 2 each after exceptional items: Basic (in Rs.)	3.57*	3.33*	2.44*	12.16	8.20
Diluted (in Rs.)	3.54*	3.28*	2.43*	12.11	8.18

\* Not annualised

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of consolidated financial results for the quarter and year ended on 31 March 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the Stock Exchange's websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website (www.blackbox.com).
- The consolidated financial results (the 'Statement') has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting standards ('Ind AS'), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

**STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2025**

(₹ in Crores, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31/03/2025	31/12/2024	31/03/2024	31/03/2025	31/03/2024
Total income from operations	124.46	87.13	103.69	376.86	386.65
Profit / (loss) before impact of foreign currency transactions and translations and tax	15.16	1.18	(10.37)	11.31	(1.98)
Net profit / (loss) for the period (before exceptional items and tax)	15.45	1.49	(10.02)	11.98	(1.11)
Net profit / (loss) for the period (after exceptional items and tax)	15.47	1.46	(14.24)	11.88	(14.98)
Total Comprehensive Income for the period / year (net of taxes) - gain / (loss)	15.53	1.38	(14.68)	11.59	(15.29)
Earnings before interest, tax, depreciation & amortisation and other income (EBITDA)	17.33	3.54	(7.22)	20.10	0.37
Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each)	33.87	33.84	33.61	33.87	33.61
Other equity as shown in the audited Balance Sheet				426.85	280.85
Earnings / (loss) per share of Rs. 2 each: Basic (in Rs.)	0.91*	0.09*	(0.85)*	0.71	(0.89)
Diluted (in Rs.)	0.91*	0.09*	(0.85)*#	0.70	(0.89)#

\* Not annualised

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of standalone financials results for the quarter and year ended 31 March 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the stock exchange's websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and Company's website (www.blackbox.com).
- The standalone financial results (the 'Statement') has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down under Indian Accounting Standards ('Ind AS'), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

# The effect of 415,500 potential equity shares outstanding as at 31 March 2024 is anti-dilutive and thus these shares are not considered in determining diluted loss per share.

The Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 27 May 2025. This Statement has been prepared on the basis of audited standalone financial statements for the year ended 31 March 2025.

Place : Dallas, Texas, United States of America  
Date : 27 May 2025  
CIN : L32200MH1986PLC040652

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD**  
**SANJEEV VERMA**  
**WHOLE-TIME DIRECTOR**  
**DIN: 06871685**

### Karnataka Bank Ltd.

Asset Recovery Management Branch, 2nd Floor, 'E' Block "The Metropolitan", Plot No C 26 & 27, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Phone: 022-35008017/35128482/35082558 - 400 051 Phone: 022-35008017/35128482/35082558 Website: www.karnatakabank.com E-mail : mumbaiairm@ktkbank.com CIN: L85110KA1924PLC001128

Please refer to our "Possession Notice" published in this newspaper on 24.05.2025 with respect to Borrower **M/s Gajalee Coastal Foods Pvt. Ltd.,** In this notice the Possession Date was inadvertently published as 21<sup>st</sup> day of May 2024. Please read the correct Possession Date as 21<sup>st</sup> day of May 2025. Other details will remain the same.

**AUTHORISED OFFICER**  
**KARNATAKA BANK LTD.**

**LIBORD SECURITIES LIMITED**  
CIN: L67120MH1994PLC080572  
Regd. Office: 104, M.K. Bhavan, 300, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai 400001 Phone: 022-22658108 / 09 E-mail: investorrelations@libord.com Website : www.libord.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025 (Rs. in Lakhs)**

Particulars	Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations	(12.06)	17.79	9.73	81.61
Net Profit / (Loss) for the period before tax	(58.71)	9.91	(69.70)	50.11
Net Profit / (Loss) for the period after tax	(58.60)	7.27	(70.10)	37.35
Total Comprehensive Income for the period	(61.48)	13.28	(79.21)	52.23
Equity Share Capital	500.00	500.00	500.00	500.00
Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	(130.38)	(51.17)	(130.38)	(51.17)
Net Worth	369.62	448.83	369.62	448.83
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) :				
1. Basic:	(1.17)	0.15	(1.40)	0.75
2. Diluted:	(1.17)	0.15	(1.40)	0.75

**Note:** The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com/corporate and Company's website at www.libord.com/libord-securities-ltd/

Place : Mumbai  
Date : May 27, 2025

**For Libord Securities Limited**  
**Sd/-**  
**Ramesh Kumar Jain**  
**CFO & Authorised Director**

### PUBLIC NOTICE

Branch Office: ICICI Bank Ltd., Plot No. 23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005

The following borrower(s) has/have defaulted in the repayment of principal and interest towards the Loan facility(ies) availed from ICICI Bank. The Loan(s) has/have been classified as Non-Performing Asset(s) (NPA). A Notice was issued to them under Section 13(2) of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, at their last known addresses. However, it has not been served and are therefore being notified by way of this Public Notice.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address	Description of Secured Asset to be enforced	Date of Notice sent/ Outstanding as on Date of Notice	NPA Date
1.	Ajit Majumdar/ Anita Majumdar/ S/o Kishan Saxena, 31/274, Rawli, M.g. Road, Near Collector, Agra, Uttar Pradesh Agra 282001/ A/c:- LBAGR00005228117/ LBAGR00005628986	House Municipal Corporation No.63b/643c/2b (one Storey), Under Kharsa No.51, Situated At Village-nagla Pyare, Mauja-shohalla, Tehsil & District-agra, Uttar Pradesh 282001	07-05-2025/ Rs.9,51,794.46/- Rs.57,670/-	8-Feb-2025

These steps are being taken for substituted service of Notice. The above borrower/s and/or guarantor/s (as applicable) is/are advised to make the outstanding payment within 60 days from the date of publishing this Notice. Else, further steps will be taken as per the provisions of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Date: May 28, 2025,  
Place: Mumbai

Sincerely Authorised Officer,  
For ICICI Bank Ltd.

### RIDHI SYNTHETICS LIMITED

Regd Office: 11-B, Mittal Tower, Free Press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai 400021.  
Tel: 022 - 2204 2554 / 2204 7164 • Email: ridhisynthetics@gmail.com • Website: www.ridhisynthetics.com  
CIN: L51900MH1981PLC025265

**EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025**

(Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter Ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
Total Income from Operations	10.85	10.85	10.85	43.41	43.41
Net Profit / (loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) ordinary activities after tax	21.83	36.77	32.50	143.07	185.36
Net Profit / (loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	21.83	36.77	32.50	143.07	185.36
Net Profit / (loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.56	26.48	29.00	107.06	149.62
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(120.31)	(640.80)	503.43	(687.63)	1,395.54
Equity Share Capital	120.20	120.20	120.20	120.20	120.20
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations)- Basic and Diluted	1.38	2.20	2.41	8.91	12.45

**NOTE:**

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Year ended 31st March, 2025 Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with SEBI circular dated 5th July, 2016. The full format of the Quarterly/ Year end Financial Results is available on the Stock Exchange website: BSE Limited (www.bseindia.com).
- The above were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 27th May, 2025.

Place : Mumbai  
Date : 27.05.2025

For Ridhi Synthetics Limited  
**Vishal Chaturvedi**  
Whole Time Director

### SHREENATH INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN No. : L67120MH1979PLC022039  
Regd. office: 801-802, Dalamal Towers, Nariman Point, Mumbai-400 021  
Tel No. : 022-66381800 / 49490800 Email Id: [sicl2889@gmail.com](mailto:sicl2889@gmail.com) , Website: [www.shreenathinvestment.in](http://www.shreenathinvestment.in)

**Extract of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025**

(Rs. in Lakhs)

Sr No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		31/03/2025 Audited	31/12/2024 Unaudited	31/03/2024 Audited	31/03/2025 Audited
1.	Revenue from operations	278.10	-	5,889.82	278.10
2.	Total Income	473.13	116.77	6,057.30	829.86
3.	Net profit from ordinary activities before tax	110.91	75.40	166.71	324.57
4.	Net profit from ordinary activities after tax	101.19	46.10	129.49	225.54
5.	Total Comprehensive Income (after tax)	(3,573.71)	(1,251.78)	4,021.19	3,500.49
6.	Equity Share Capital	25.00	25.00	25.00	25.00
7.	Reserves (excluding Revaluation reserves as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year)	-	-	-	34,242.32
Earnings per share (of Rs. 10/- each):					
(a) Basic		40.48	18.44	51.79	90.22
(b) Diluted		40.48	18.44	51.79	90.22

**Note:**

- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 are available on Company's website at [www.shreenathinvestment.in](http://www.shreenathinvestment.in) and also on stock exchange website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- The above mentioned financial results have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on May 27, 2025. The Statutory Auditors of the Company have conducted audit of these financial results in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 and have issued Audit Report with unmodified opinion.
- The figures of the last quarter for the current year and for the previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the unaudited published year to date figures up to the third quarter. The figures up to end of the third quarter were only reviewed and not subject to audit.

Place : Mumbai  
Date : May 27, 2025

For Shreenath Investment Company Limited  
Sd/-  
**Janin Jain**  
Managing Director  
(DIN No. : 08521872)

<



ASHOKA FINANCIALS LIMITED						
CIN NO. L15143CT199PL1C00687Regd. Off. - 408, Walford Chowk, Falafah Chowk, Raipur-492001						
Email: anraipurguj@yahoo.com; Website: www.ashokafinancials.com						
Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended on March 31, 2021						
Particulars	Quarter Ended			Year Ended		
	31-Mar-25	31-Dec-24	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Mar-24	
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
<b>Total Income from Operations</b>		1.85	45.59	31.34	148.21	
<b>Profit/(Loss before exceptional items and tax</b>	(5.17)	(5.32)	2.30	(16.68)	2.26	
<b>Exceptional Items</b>						
<b>Profit/(Loss before and tax</b>	(5.17)	(5.32)	2.30	(16.68)	2.26	
<b>Tax Expense</b>						
a) Current Tax	-	-	0.57	-	0.57	
b) Deferred Tax	-	-	-	-	-	
c) Tax for previous Years	-	-	-	-	-	
<b>Profit/(Loss) for the period</b>	(5.17)	(5.32)	1.73	(16.68)	1.69	
<b>Other comprehensive Income</b>						
a) Items that will not be reclassified to profit and loss	1.94	1.95	1.95	1.94	24.52	
b) Items that will be reclassified to profit or loss	0.06	0.06	22.64	0.06	22.64	
(i) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-	
(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-	
<b>Total Comprehensive Income for the period</b>	(3.17)	(3.33)	20.32	(14.68)	26.19	
<b>Comprising Profit/(Loss) and Other comprehensive Income for the period</b>						
<b>Paid-up Share Capital (par value Rs. 10/- each fully paid up)</b>	340.19	340.19	340.19	340.19	340.19	
<b>Reserve including Revaluation reserves as per Balance sheet of previous accounting year</b>						
<b>Earnings per equity share (Par value Rs. 10 each)</b>						
i) Basic	(0.09)	(0.16)	0.77	(0.43)	(0.01)	
ii) Diluted	(0.09)	(0.16)	0.77	(0.43)	(0.01)	

**NOTES TO RESULTS:** The above is an extract of the detailed form of Annual Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation - 33 of the SEBI (ROD) 2015. The full form of results are available on our company's website <http://www.ashokafinancials.com> as well as on the website of BSE Limited.

Place: Raipur  
Date: 25.05.2025

"ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
SD/- Hifzal Bhatia, Managing Director